



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

14 कार्तिक 1941 (श10)  
(सं0 पटना 1214) पटना, मंगलवार, 5 नवम्बर 2019

---

सं0 एल/एच0जी0-1511/2016-10788  
गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

संकल्प

31 अक्टूबर 2019

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 सं0-204/2010 से उत्पन्न सिविल अपील सं0-857/2016 में दिनांक 03.02.2016 को पारित आदेश के आलोक में श्री अनिल कुमार सिंह, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, खगड़िया को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 06.07.2012 से दिनांक 23.05.2013 तक प्रमंडलीय समादेष्टा (वेतनमान-₹15600-39100, पी0बी0-3 + ग्रेड पे ₹6600) के एक अधिसंख्य पद का सृजन।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 सं0-204/2010 से उत्पन्न सिविल अपील सं0-857/2016 में दिनांक 03.02.2016 को पारित आदेश के आलोक में श्री अनिल कुमार सिंह, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, खगड़िया को प्रारंभिक नियुक्ति से ही सारे परिणामी लाभ प्रदान किये जाने का न्यायादेश पारित है।

2. फलस्वरूप श्री अनिल कुमार सिंह से ठीक कनीय रहे श्री पवन कुमार सिंह, जिला समादेष्टा को विभागीय अधिसूचना सं0-2922, दिनांक 21.03.2012 द्वारा योगदान की तिथि (दिनांक 06.07.2012) से प्रमंडलीय समादेष्टा (वेतनमान-पी0बी0-3 + ग्रेड पे ₹6600) के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के कारण श्री अनिल कुमार सिंह, जिला समादेष्टा को भी दिनांक 06.07.2012 से प्रमंडलीय समादेष्टा (वेतनमान-पी0बी0-3 + ग्रेड पे ₹6600) के पद पर प्रोन्नति प्रदान किया जाना आवश्यक हो गया। किन्तु दिनांक 06.07.2012 से 23.05.2013 तक प्रमंडलीय समादेष्टा (वेतनमान-पी0बी0-3 + ग्रेड पे ₹6600) के रिक्त पद के अभाव में उक्त अवधि के लिए प्रमंडलीय समादेष्टा (वेतनमान-पी0बी0-3 + ग्रेड पे ₹6600) का एक अधिसंख्य पद सृजन की आवश्यकता हुई।

3. अतएव सम्यक विचारोपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० सं०-204/2010 में दिनांक 03.02.2016 को पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, खगड़िया को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 06.07.2012 से दिनांक 23.05.2013 तक प्रमंडलीय समादेष्टा (वेतनमान— ₹15600-39100 पी०बी०-3 + ग्रेड पे ₹6600) के एक अधिसंख्य पद के सृजन का निर्णय लिया गया है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विमलेश कुमार झा,  
सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1214-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>